



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 भाद्र 1933 (श0)

(सं0 पटना 489) पटना, बृहस्पतिवार, 1 सितम्बर 2011

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

4 अगस्त 2011

सं0 वन्य प्राणी-06/07-348(ई0) पं०—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) संशोधन 2006 की धारा 38—v के निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य में बाघों की आवास तथा उनके भोज्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के अनुश्रवण करने एवं एतद् संबंधित कार्यों के समन्वय हेतु प्रशासनिक व्यवस्था के अर्न्तगत बिहार बाघ संरक्षण संचालन समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:—

(क) विकास आयुक्त	अध्यक्ष
(ख) पदाधिकारी सदस्य:—	
(i) सरकार के प्रधान सचिव/सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग	सदस्य
(ii) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार	सदस्य
(iii) अपर पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)	सदस्य
(iv) वन संरक्षक—सह-क्षेत्र निदेशक वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना, बेतिया	सदस्य
(v) जिला पदाधिकारी पं० चम्पारण, बेतिया	सदस्य
(ग) वन्यप्राणी संरक्षण के विशेषज्ञ:—	
(i) श्री सहदेव झा, भा०व०से० (से०नि०) पूर्व मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार।	सदस्य
(ii) श्री सुनील कुमार चौधरी, प्रोफेसर, जैव-विविधता संरक्षण केन्द्र, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	सदस्य
(iii) श्री राकेश कुमार सिंह, डब्लू०डब्लू०एफ	सदस्य
(घ) राज्य अनुसूचित जनजाति परामर्शदातृ	

परिषद के सदस्य	
(i) रिक्त	सदस्य
(ii) रिक्त	सदस्य
(ड.) पंचायती राज्य एवं कल्याण विभाग के पदाधिकारी:-	
(i) सरकार के प्रधान सचिव/सचिव अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग	सदस्य
(ii) निदेशक पंचायती राज्य विभाग	सदस्य
(च) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य-वन्यप्राणी प्रतिपालक बिहार	सदस्य सचिव

2. समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी।
3. समिति के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों अथवा समिति के पुर्नगठन तक रहेगा।
4. सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों को देय सुविधाओं के समकक्ष सुविधाएँ देय होगी।

इस प्रयोजन पर होने वाले व्यय का वहन गैर योजना के वानिकी एवं वन्यप्राणी शीर्ष से विकलित किया जाएगा तथा इसका लेखा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक बिहार के कार्यालय में संधारित किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रामावतार राम,  
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 489-571+25-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>